

खंड -क (अंक-५)

प्रश्न-१. निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए । (५)

बदलू मनिहार था । चूड़ियाँ बनाना उसके पूर्वज का पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था । उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी । उस गाँव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं आस-पास के गाँवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे । परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसें से बेचता न था । उसका अभी तक वस्तु-विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे ।

प्रश्न -

१. पाठ व लेखक का नाम लिखो - (१)
२. बदलू कौन था ? (१)
३. बदलू की बनाई चूड़ियों की क्या विशेषता थी ? (१)
४. वस्तु-विनिमय क्या है ? (१)
५. रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखो - (१)

खंड -ख (अंक -१०)

प्रश्न -२. शब्द किसे कहते हैं ? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए । (२)

प्रश्न -३. पद किसे कहते हैं ? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए । (२)

प्रश्न -४. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए - (६)

- | | | |
|------------|-----------|--------|
| १ फबना | २ चाव | ३ पात |
| ४ प्रत्युष | ५ बियाबान | ६ गोता |

खंड -ग (अंक -२०)

प्रश्न -५. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर २५ से ३० शब्दों में लिखिए -

१. कवि पुष्पों के तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है ? (२)
२. मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया ? (२)
३. “मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था “
-लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था ? (२)
४. “मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार के तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा “
-लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई ? (२)
५. चाँद बीबी कौन थी ? (२)
६. ‘बस की यात्रा’ पाठ के लेखक का नाम लिखो - (१)

प्रश्न -६. निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या लिखिए - (५)

अभी न होगा मेरा अंत
अभी -अभी ही तो आया है
मेरे वन में कोमल वसंत
अभी न होगा मेरा अंत।

प्रश्न -७. 'मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं । 'इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है ? (४)

खंड -घ (पूर्वज्ञान के आधार पर) (अंक -५)

प्रश्न -८. ज्वरग्रस्त होने के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए (५)